ADISHAKTI LOHA AND ISPAT LIMITED

Regd. Office: Plot 3, SHOP 325, DDA C.CNTR, Aggarwal Plaza, Sec-14, Rohini New Delhi- 110085

Phone: 011-27860681, E-mail: info@adishaktiloha.com, website:adishaktiloha.com

CIN: L51909DL2015PLC275150

September 08,2023

To,

The Department of Corporate Relations

**BSE Limited** 

P. J. Towers, Dalal Street,

Fort, Mumbai-400 001

**SECURITY CODE:** 543377

ISIN: INEOCWK01019

Subject: Newspaper advertisement of Notice of AGM

Dear Sir,

With reference to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of notice of AGM published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Friday, September 08, 2023.

We request you to kindly take the above information on record

Thanking You,

For ADISHAKTI LOHA AND ISPAT LIMITED

**Pawan Kumar Mittal** 

Director

**DIN**: 00749265

Encl: A/a



### McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L51109WB1998PLC087076 Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700 001 Telephone: 033-2210-1221/ 2243-5391/2248-9434/35, Fax: 033-2248-8114/2248-6265 E-mail: administrator@mcleodrussel.com, Website: www.mcleodrussel.com

## NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice dated 14th August 2023 convening AGM. The venue shall be deemed to be the registered office of the Company

The Notice convening AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March 2023 has been sent through electronic mode in conformity with the regulatory requirements to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI. The Notice and Annual Report for the Financial Year 2022-23 are available & can be downloaded from the website of the Company viz., www.mcleodrussel.com and also on the website of Stock Exchange where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com. The requirements of sending physical copy of Notice and Annual Report for F.Y. 2022-23 to the members have been dispensed with vide MCA and SEBI circulars.

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the platform to attend the AGM through VC/OAVM at http://www.evoting.nsdl.com under the Shareholder/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of Company will be displayed.

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the members are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The detailed e-voting instructions are as enumerated

- (a) Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 26th September, 2023 at 9.00 a.m.
- (b) Date and time of end of remote e-voting: Thursday, 28th September, 2023 at 5.00 p.m. (IST).
- (c) Cut-off date: Friday, 22nd September, 2023.
- (d) The voting rights of the members shall be in proportion to the number of equity shares held by them as on the Cut-off date i.e., Friday, 22nd September, 2023.
- Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Thursday, 28th September, 2023. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after aforesaid date and time.
- Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting during the
- Notice of Annual General Meeting inter alia containing the procedures of remote e-voting, e-voting during the AGM & attending the AGM through VC/OAVM are available on the website of the Company at www.mcleodrussel.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and before the cut-off date may approach the NSDL/ Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.
- A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their votes again.
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- (k) Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-voting:

Particulars	National Securities Depository Limited	Maheshwari Datamatics Private Limited  Mr. Ravi Kumar Bahl, Compliance Officer  23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001		
Name & Designation	Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager			
Address	Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013			
Email ID evoting@nsdl.co.in		mdpldc@yahoo.com		
Phone No	022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000	7003476465 / 033-22482248		

4848 / C.P. No. 3238) as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. (m) The declared results of voting along with the Scrutiniser's Report shall be placed on the Company's website www.mcleodrussel.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of results and also be forward to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

By order of the Board For McLeod Russel India Limited Place: Kolkata Sd/- (Alok Kumar Samant) Date: 07.09.2023 Company Secretary



### **APIS INDIA LIMITED** Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008

Tel: 011-43206650; Fax: 011-25713631; E-mail:mail@apisindia.com Website: www.apisindia.com, CIN: L51900DL1983PLC164048

NOTICE OF THE 415T ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the APIS India Limited ("the Company") will be held on Saturday, 30th day of September, 2023 at 01:30 P.M. at Almondz Hotel at 4/3, Block-4, Near Metro Pillar No- 171, East Patel Nagar, New Delhi, India- 110008, to transact the items of ordinary & Special businesses as set out in the notice of the 41" AGM dated August 14, 2023.

The Electronic copies of the Notice of the 41st AGM and Annual Report containing, inter alia, the Audited Financial Statements (Consolidated & Standalone) for financial year ended March 31, 2023 and Reports of the Auditors and Director's thereon, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of notice of AGM has been completed on September 06, 2023.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the Company's website https://www.apisindia.com/pdf/Annual-Report-2023.pdf and are also available for inspection during the business hours, at the registered office of the company upto the date of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 read with Rule 20 and 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, Regulation 44 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and clause 7.2.1 of the Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

All members are hereby informed that:

Date: September 07, 2023

Place: New Delhi

- The business as set out in the 41st Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Wednesday, September 27, 2023 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Friday, September 29, 2023. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M (IST) on September 29, 2023. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Friday, September 22, 2023, being cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting in the AGM.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 22, 2023 may obtain the Login Id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining Login Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company website (www.apisindia.com) and CDSL website (www.evotingindia.com) However if the member is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote through remote e-voting.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Friday, September 22, 2023.
- The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not already cast their vote by Remote E-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the AGM through ballot paper. The members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories
- polling paper at the AGM. For the process and manner of the E-Voting members may go through the instructions in the Notice of 41st AGM. The Annual Report, Notice of AGM of the company and others documents are also available on the Company's website https://www.apisindia. com/pdf/Annual-Report-2023.pdf and the Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India)

as on the cut-off date i.e. Friday, September 22, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through

Limited (CDSL) www.evotingindia.com. Members who do not receive the Notice and Annual Report may download the same as

- above or may request for the copy of the same from company. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the email id to receive the Notice of the AGM and the Annual Report 2022-23 electronically and to receive login-id and password for remote e-voting. For permanent registration of their e-mail address, members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant ("DP") and to the Registrar for those Members holding shares in physical form.
- Further, in terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on E-voting facility provided by the listed companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depositories Participants. Shareholders are requested to updated their mobile number and email id correctly in their demat account in order to access e-voting facility.
- 1. Mr. Anand Kumar Singh (Membership No. F10812), Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The resolutions, if passed by requisite majority shall be deemed to have been passed on the date of 41st AGM i.e. Saturday, September 30, 2023. 13. The results of the e-voting alongwith the results of poll conducted at the AGM alongwith report of Scrutinizer shall be declared
- on or after the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website www.apisindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com within 48 hours from the conclusion of Annual General Meeting and the results shall be communicated to the Stock Exchange, where the equity shares of the Company are listed. In case of any queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual'
- available at <a href="www.evotingindia..com">www.evotingindia..com</a> under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may address their queries/grievances connected with respect to e-voting to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depositary Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Email:
- helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on Toll Free no. 1800-200-5533. Members may also write to Mr. Vikas Aggarwal, Company Secretary at vikas.cs@apisindia.com or at registered office of the

The above intimation is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule made thereunder and Regulation 42 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during the book closure period i.e. from Friday, September 22, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 41st Annual General Meeting.

For APIS India Limited Amit Anand (Managing Director) DIN:00951321

assistance.

Notes: A member entitle to attend and vote at the 41st AGM is entitle to appoint a proxy to attend and vote instead of himself herself and the proxy need not be a member of the Company. A proxy form, in order to be effective must be lodged at the registered office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the AGM. The proxy holder shall prove his/her/its identity at the time of attending the meeting.

# ADISHAKTI LOHA AND ISPAT LIMITED

Sec-14, Rohini, New Delhi-110085 | Phone: 011-27860681 Email: info@adishaktiloha.com | Website: adishaktiloha.com

"Metro Grill" 415, 4th Floor, Citi Centre Mall, Sector 10, Rohini, Delhi-110085 ("the Meeting"). The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier to those whose email- Id is not registered, and electronically to those members who have

The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice is available on the website of the Company (www. adishaktiloha.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public

resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) as the Agency to provide e-voting facility The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. . The formal of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.adishaktiloha.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, September 27, 2023 from 9:00 a.m. and end on Friday September 29, 2023 at 5:00 p.m. The remote a-voting shall

A person, whose name appears In the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Saturday, September 23, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

not be allowed beyond the aforesaid date and time.

Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. If the members already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

applicable rules there under that the Company has fixed Saturday, September 23, 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting. For Adishakti loha and Ispat Limited

Date: 06/09/2023 Place: Delhi

Élin

एलिन≣

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED KOCHUVELI, Thiruvananthapuram-695 021 PH: 0471-2501533, 2502163

### e-mail:rmttpl@gmail.com, rm@ttpltd.ir E-TENDER NOTICE Supply of Calcium Carbonate

Powder 3500 MTs

e-tenders are invited in TWO BID system from experienced Manufacturers / Suppliers for the Supply of Calcium Carbonate Powder. E-Tender No. :- TTP/CD/RM/CaCO3/2023-24 dated 02.09.2023

Tender ID: - 2023 TTPL 599538 1 Due date & time of bid submission :-15.09.2023 up to 6.00 p.m The tender shall be submitted only by online as

e-tender through the portal www.etenders. For more details, please visit our website www.travancoretitanium.com

HOD (Comml)

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify entering into any agreements any manner whatsoever.

# INDO TECH

### INDO-TECH TRANSFORMERS LIMITED CIN: L29113TN1992PLC022011

Regd. Office: Survey No. 153-210, Illuppapattu Village, Near Rajakulam, Kancheepuram (Dist.) Tamilnadu - 631561. Tel: +91 44 27281854 Email: investor@indo-tech.com; Website: www.indo-tech.com

### NOTICE OF 31" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be reld on Friday, the 29" day of September 2023 at 10:30 A.M. Indian Standard Time ("IST") hrough Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the sinesses as set out in the Notice of AGM.

17/2020 and 14/2020 (collectively referred as "MCA Circulars"), permitted holding of AGM hrough VC / OAVM, without physical presence of members at a common venue. In compliance with the Circulars, relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC /OAVM. In case you have any queries or issues regarding login, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.instameet.linkintime.co.in or write an e-mail to instameet@linkintime.co.in or call 022-49186175.

dispatched on September 07, 2022, through electronic mode to all Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the Company's website www.indo-tech.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at instavote linkintime co in.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and as set out in the AGM Notice through e-voting platform of Link Intime India Private Limited.

through remote e-voting or e-voting system at the AGM. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 26, 2023 at 9:00 A.M. and end on Thursday, September 28, 2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited beyond 5:00 p.m. on September 28, 2023. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. Members who have voted through Remote e-Voting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to cast their votes again. Once the vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

for e-voting by sending an e-mail intimating DP ID & Client ID/Folio No. at enotices@linkintime.co.in. However, if he/she is already registered with e-voting of Link Intime India Private Limited / NSDL / CDSL, then he/she can use his/her existing Used ID & password for casting votes. The detailed procedure /instructions for e-voting, registration of email ID and participation in AGM through VC/OAVM are contained in the Notice of AGM.

n case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions("FAQs") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in/Home or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or call on 022-49186000.

> By order of the Board of Directors For Indo-Tech Transformers Limited

Date : September 07, 2023 Place: Kancheepuram

Company Secretary



### VAISHALI PHARMA LTD. (Formerly known as Vaishali Pharma Pvt. Ltd.)

CIN: L52310MH2008PLC181632 Corp. & Reg. Office: 706-709, 7th Floor, Aravali Business Centre, R. C. Patel Road, Off. Sodawala Lane, Borivali (West), Mumbai - 400092. Tel.: +91-22-42171819 | E-mail: investor@vaishalipharma.com

# NOTICE is hereby given that the 16" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing (VC) facility/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular

for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2022-2023 have been sent on September 07, 2023, to all those member whose email IDs are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The Notice of the 16" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-2023 are also

Stock Exchange at www.nseindia.com The Members are requested to refer the AGM notice, for instructions for attending the AGM

# Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time

the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of emote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the 16" AGM Members are requested to note the following:

 The remote e-Voting facility shall commence on Tuesday, September 26, 2023 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, September 28, 2023 (5:00 p.m. IST). The e-voting Module

- shall be disabled by RTA for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, it cannot be changed subsequently. Those members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not
- from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date i.e. Saturday, September 23, 2023 only shall be entitled to
- shall not be entitled to cast their vote(s) again in the AGM.
- Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on +91 22 24994545 or the Company at investor@vaishalipharma.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

# For Temporary Registration for Demat shareholders:

who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with RTA by emailing at - info@bigshareonline.com in on their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and email id. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at info@bigshareonline.com. On submission of the shareholders details, an OTP will be received by the shareholder

Depository Participant by following the procedure prescribed by the Depository For Registration of email id for shareholders holding physical shares, if any, may contact

technical assistance before / during the Meeting to access and participate in the AGM may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at his designated email ID: evoting@nsdl.co.in or sanjeevy@nsdl.co.in or at telephone number +91-9324006225;

Book Closure: The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive).

The result of voting will be declared on or before October 3, 2023 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.vaishalipharma.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com)

themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number at investor@vaishalipharma.com atleast 48 hrs prior to the date of AGM i.e. on or before 12:00 noon (IST) on Thursday, September 27, 2023. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. For Vaishali Pharma Limited

> Vishwa Mekhia Company Secretary & Compliance Officer

Elin Electronics Limited

For and on behalf of

M.No-A30540

No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 22/2022 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

through VC / OAVM.

cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred

avail the facility of remote e-Voting / e-voting at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

# The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and

which needs to be entered in the link for verification. For Permanent Registration for Demat shareholders:

Members holding shares in demat form are requested to update the same with their

the RTA at info@bigshareonline.com'. In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, the member may refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call on the toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in. The Members who require

Ms. Disha Shah, Proprietor of M/s. Disha & Associates, Practicing Company Secretary, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a

Option to seek speaker's registration: Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register

Place: Mumbai Date: September 07, 2023

obtaining their login credentials to their registered email address.

Regd off: Plot 3, Shop 325, DDA C.Cntr, Aggarwal Plaza,

NOTICE OF AGM

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the members of Adishakti Loha and Ispat Limited will be held on Saturday, September 30, 2023, at 12: 15 p.m. at registered their e-mail address with the Depositories / Company

Holidays, during business hours up to the date of the Meeting. The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the

email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Bigshare Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form.

RECORD DATE NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and

**ELIN ELECTRONICS LIMITED** CIN: L29304WB1982PLC034725, Website: www.elinindia.com Registered Office: 143, Cotton Street, Kolkata - 700007, Tel: 033 22684329 Corporate Office: 4771, Bharat Ram Road, 23, Daryaganj, New Delhi-110002

## NOTICE OF 41st ANNUAL GENERAL MEETING. **E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION**

Email id: rkc@elinindia.com, Tel: +91 011 43000400

The 41st Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Saturday, the 30th September 2023 at 10:30 A.M., (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Notes to the Notice of AGM Members participating in the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Annual Report for the Financial Year 2022-23 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the ACM has been sent to the Members of the Company on 6th September, 2023 and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent: KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or Depository Participants (DP), on 1st September, 2023. The aforesaid document(s) are also available and can be downloaded from the website of Company at <a href="https://www.elinindia.com/pdf/investors/">https://www.elinindia.com/pdf/investors/</a> annual\_report/Annual\_Report\_2022\_2023.pdf; website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

www.nseindia.com. **Book Closure**: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023

E-Voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on Saturday, 23rd September 2023 (Cut-off Date), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the items to be considered/resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-Voting services provided by CDSL:

(both days inclusive) for the purpose of AGM.

attending the AGM through VC or OAVM.

(A) Remote e-Voting: The remote e-Voting period commences on Tuesday, 26th September 2023 (10.00 A.M.) and ends on Friday, 29th September 2023 (5.00 P.M.) The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(B) E-voting at the AGM: The facility for e-Voting shall also be made available at the

AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-Voting and are

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM. The manner of remote e-Voting/ e-Voting at the AGM by the Members holding shares

in dematerialized mode/ physical mode & registering E-mail address of Members who

have not registered their E-mail addresses and information, instructions and procedure

relating to Login ID and Password for e-Voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Members who have already casted their vote by remote e-Voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OAVM, but shall not be entitled

to vote again at the AGM. Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-Voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through e-Voting.

**Dividend**: Final Dividend as recommended by the Board of Directors for the FY ended

31st March, 2023, if approved at the AGM, will be paid to those Members of the Company

who hold shares: (i) In demat mode, based on the list of beneficial owners to be received from NSDL and CDSL as at the close of business hours on Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023, being the record date; (ii) In physical mode, if the names appear in the Company's Register of Members as on Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023. The Final Dividend will be paid subject to deduction of tax at source within 30 days from the date of declaration. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS/withholding tax rate applicable, Members are requested to provide requisite details and documents on or before Friday, 22nd September, 2023 at <a href="https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx">https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx</a> or send the same to the Registrar and Share Transfer Agent at <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> on or before Friday, September 22, 2023. No communication on the tax determination/deduction or residential status shall

be entertained post by Friday, 22nd September, 2023. Manner of registering/updating E-mail addresses and Bank Account details for receiving Notice/ Annual Report and Dividend electronically:

(A) Shares held in Physical Mode: Please register/update the PAN and KYC details (including E-mail address and Bank Account's particulars) with the Company's RTA, KFin Technologies Limited (Unit: Elin Electronics limited), Email: einward.ris@kfintech.com in prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. The Company has already sent letters to the Members for furnishing the required details as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023. Members may access the relevant Forms available on the website of the Company at https://www.elinindia.com/ investors/#Various\_Forms.

(B) Shares held in Demat Mode: Please contact your DP and register/update your PAN. Email address, Bank Account's details, etc. in your demat account, as per the process advised by your DP. After due verification and if requested, the Company/RTA will forward the procedure for

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533. You may also write to the Company at its Secretarial Office for any

New Delhi

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or

with advertisers or otherwise acting on an advertisement in The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular Nos. 10/2022, 20/2020.

he Annual Report for the financial year ended 2022-23 along with the notice of AGM has been

Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 23, 2023, to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off-date Friday, September 22, 2023, may cast their votes electronically on the businesses Members are hereby informed that the business as set out in the AGM notice may be transacted

Any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off-date i.e., September 22, 2023, may obtain User ID & password

Manikandan M

13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI (Listing Obligations and Electronic copy of the Notice of the 16th Annual General Meeting, procedure and instructions

available on the website of the Company at www.vaishalipharma.com on the websites of the

Remote e-Voting: n compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the

Procedure for registration of e-mail address and bank details by shareholders:

Lata Rani Pawa Date: 7th September, 2023 Company Secretary and Compliance Officer Place: New Delhi

### financialexp.epapr.in

### ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1996PLC078339

पंजीकृत कार्यालयः 26/25, बाजार मार्ग, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060 दूरभाषः 011-25769567/68, फैक्सः 011-25752007, वेबसाइट:www.orientaltrimex.com ईमेलः info@orientaltrimex.com

27वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन एवं ई—वोटिंग की जानकारी के संबंध में अंशधारकों को सचना

तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, शुक्रवार 29 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12 00 बजे (भामास) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने में समथ

27वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड वं माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.orientaltrimex.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट nseindia.com तथ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुपालन मे एतदद्वारा सचित किया जाता है कि सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंश अंतरण बहियां एजीएम व उद्देश्यार्थ 23 सितम्बर, 2023 से लेकर के 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। कंपनी ने एजीएम में पारित होनेवाले संकल्पों के संदर्भ में सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम कट—ऑफ तिथि अर्थात् २२ सितम्बर, २०२३ के अनुसार भौतिक अथवा अभौतिक रूप में अंशों का धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग' तथा 'एजीएम के दौरान ई-वोटिंग') की व्यवस्था की है। उपरांकित कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के अंशों का धारण करनेवाले सदस्यगण ही ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। मतदान अधिकारों (ई-वोटिंग सुविधा के लिए) की गणना कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्य(यों) के नाम में पंजीकृत अंशों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी समस्त योग्य सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग सुविधा की निम्नलिखित अनुसूची को ध्यान में रख लें:

I	विवरण	दिनांक
	वर्ष 2022—23 की वार्षिक रिपोर्ट और सूचना के प्रेषण की समापन की तिथि	07 सितम्बर, 2023
	दूरस्थ ई–वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे
I	दूरस्थ ई-वोटिंग के समापन की तिथि एवं समय	28 सितम्बर, 2023 को सायं 05.00 बजे
I	एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की तिथि	29 सितम्बर, 2023
l	परिणाम की घोषणा की तिथि	03 सितम्बर, 2023 को अथवा इससे पूर्व

समस्त योग्य सदस्य तथा व्यक्ति जो सचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के सदस्य बनते हैं वे ई-वोटिंग स्विधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने/उससे जुड़ने की प्रविधि तथा एजीएम की सूचना में वर्णितानुसार सदस्यों के ईमेल पतों के पंजीकरण / अद्यतनीकरण हेतु दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें / कर सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करनेवले सदस्यगण हालांकि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सदस्य द्वारा एक बार कर दिए गए मतदान को बाद में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि दूरस्थ ई-वोटिंग को सीडीएसएल द्वारा उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय के उपरांत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई शिकायत करने के इच्छ्क सदस्यगण श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन

पयूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई–400013, ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूरभाषः 1800 22 55 33 से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसार कृते ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड

राजेश कुमार पुनिया स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक दिनाकः 07.09.2023

### जील ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में जील ग्लोबल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः ए 261-262, तीसरी मंजिल, गली न० 06, महिपाल पुर एक्सटेन्सन, नई दिल्ली -110037 ईमेल आईडी: <u>cs@zeal-global.com</u>, दूरभाष: 011-41444063

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की दसवीं वार्षिक साधारण बैठक शूक्रवार, सितम्बर 29, 2023 को सायं 04:00 बजे (आईएसटी) विडियो कानफ्रैसिंग (वीसी/अन्य आडियों विज्वल माध्यम ओएवीएम) द्वारा आयेजित की जायेगी। कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लागू सभी प्रावधानों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) एवं एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 द्वारा जारी प्रसांगिक परिपत्रों के अनुपालन में एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि दसवीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेत बिना सदस्यों के भौतिक उपस्थिति के एक सामान्य स्थल पर वीसी/एओवीएम द्वारा आयोजित करना प्रस्तावित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013. की धारा 91 के प्रावधानों के सम्बन्ध में कम्पनी के सदस्यों का पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेत बंद रहेंगी।

दसवीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों जिनके ईमेल आईडीज कम्पनी के रिकार्ड में उपलब्ध को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा 07 सितम्बर, 2023 को द्वारा भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट साथ में हमारी वेबसाइट www.zeal-global.com, साथ ही में स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट यानि www.nseindia.com पर उपलब्ध है। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्ताओं के सम्बन्ध में उनके वोट देने की सुविधा का प्रयोग करने में प्रसन्न है। सदस्यों से अनूरोध है कि वे ध्यान दें कि ई–वोटिंग मंगलवार, 26.09.2023 (प्रातः 09:00 बजे) से प्रारम्भ होकर वीरवार 28.09.2023 (सायं 05:00 बजे) पर समाप्त होगी। कृपया नोट करें कि उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। कृपया ई-वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट देने के लिए https://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभदाई स्वामी की

पंजिका में कट-ऑफ तिथि यानि 22 सितम्बर, 2023 को अंकित होंगे, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ बैठक में वोटिंग की सुविधा का हकदार होगा। जो सदस्य भौतिक प्रपत्र में शेयर धारण करता हो अथवा जिसने कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का संदर्भ लें। यदि किसी सदस्य नक अपना ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया इसके लिए कम्पनी सचिव अथवा आरटीए से सम्पर्क करें। कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना को भेजने के बाद सदस्य बना हो और कट-ऑफ तिथि

को शेयर धारण करता हो, यूजर-आईडी एवं पास वर्ड के लिए evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजकर प्राप्त कर सकता है। एजीएम स्थल पर वोटिंग प्रक्रिया ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा संचालित कराई जायेगी। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम सें अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे दोबारा ई-वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। एक सदस्य कम्पनी को यदि अपेक्षित हो, कम्पनी को वार्षिक रिपोर्ट के लिए आग्रह कर सकता है। इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वाटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए नामः श्रीमती

मोनल गुप्ता, पदः कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, पता ए 261-262, तीसरी मंजिल, गली न० 06, महिपाल पुर एक्सटेन्सन, नई दिल्ली -110037 ईमेल आईडी: cs@zealglobal.com, दूरभाषः 011-41444063 को सम्बोधित कर सकते हैं। कृते जील ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड

> (पूर्व में जील ग्लोबल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड) मोनल गुप्ता कम्पनी सचिव सदस्यता संख्या: A29974

## टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन-एल74899डीएल2000पीएलसी105817

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 08.09.2023

रजि. एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-174, भूतल , ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1, नई दिल्ली—110020

दूरभाषः 011-47351111 फैक्सः 011-2622 9671 वेबसाइटः www.tigerlogistics.in, ईमेलः csvishal@tigerlogistics.in

23वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को दोपहर 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के बाद परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या ०२ / २०२१ दिनांक १३ जनवरी २०२१ और परिपत्र संख्या २१ / २०२१ दिनांक १४ दिसंबर 2021, 02 / 2022 दिनांक 5 मई 2022 और नवीनतम 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / डीडीएचएस / पी / सीआईआर / 2022 / 0063 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी /एचओ/सीआरडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर /2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए 23वीं एजीएम की सूचना मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी है जिनके ई—मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

23वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23की वार्षिक रिपोर्ट |कंपनी की वेबसाइट www.tigerlogistics.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस –2) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में कारोबार किये जाने के सम्बन्ध में एजीएम से पहले / उसके दौरान रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

रिमोट ई—वोटिंग के विस्तृत निर्देश 23वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई—वोटिंग स्विधा 24 सितंबर 2023 को सुबह 9:00 बजे से 27 सितंबर 2023 को शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सूचीकरण विनियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को ई—वोटिंग सुविधाएं प्रदान कर रही है जिनका नाम 21 सितंबर, 2023 (कट—ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने शेयर हासिल कर लिया है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एनएसडीएल से अपना लॉगिन

आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। श्री मनोज कुमार जैन, एएमजे एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को एजीएम से पहले / उस दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार, 23वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शियर ट्रांसफर पुस्तकें 21 सितंबर, 2023 से 28 सितंबर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद

कृते टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड

हरप्रीत सिंह मल्होत्रा प्रबंध निदेशक

### वेलक्योर इंग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. CIN: L24232DL1996PLC227773 पंजी. कार्या.: 32/36, बेस्मेन्ट (बैक साइड), वेस्ट पटेल नगर, रामजस ग्राउण्ड के निकट, दिल्ली-110008

ईमेलः welcuredrugs227@gmail.com, वेबसाईटः www.welcuredrugs.com सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आमसभा गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 के 12.30 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की

सर्क्यलर नं. 20/2020 तिथि 05 मई. 2020 के साथ पठित सर्क्यलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 के अनुसार तथा भौतिक प्रतियों के प्रेषण में संलग्न कठिनाइयों को देखते हुए एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल 01 सितम्बर, 2023 को कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 तथा एजीएम की सूचना की भौतिक/हार्ड प्रतियाँ नहीं भेजी जाएंगी। चूंकि सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जाएगी, सदस्यों

की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तद्नुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सीज की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिये उपलब्ध नहीं होगी। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि compliances@skylinerta.com पर

कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहाँ के बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास उसे अद्यतन करा लें। कृपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.welcuredrugs.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है। पुनः सुचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित तथा विनियमन, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कम्पनी सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा उसे एनएसडीएल की रिमोट

ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें: कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितम्बर 2023 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होकर बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 के 5.00 बजे अप. तक जारी

II. भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एजीएम में मतदान करने के लिये योग्य नहीं होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने मै वी कुमार एंड एसोसिएट्स के श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 18 सितम्बर, 2023 से

किसी प्रकार की पृछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित आगे किसी भी समस्या के लिये सदस्य निम्न सम्पर्क नं. पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं: फोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559

बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से बंद

कृत्ते, वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

06.04.2021

हस्ता./- नामः विशाल मेहरा तिथिः 4.9.2023 DIN: 09717741 स्थानः नई दिल्ली पदनामः प्रबंध निदेशक पताः 47, राधे पुरी एक्स्टें. 2, गली नं. 4, कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110051

### स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड (CIN: L65100DL1992PLC047327) पंजी. कार्याः 224, जी/एफ स्वयम सेवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., झिलमिल, दिल्ली-110032

सूचना

स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं (**इक्कीतसर्वीं**) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार 30 सितम्बर 2023 को 09.30 बजे पूर्वा. में ''एस-524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092'' में आयोजित की जाएगी जिसम. उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 01 सितम्बर 2023 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार 23 सितम्बर 2023 से शनिवार 30 सितम्बर 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक—2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

- रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा.)
- रिमोट ई—वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः
- शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे सायं) • मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023
- एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं. लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने
- में सक्षम नहीं होंगे। • एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.svamsoftwareinfo.in एवं
- सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि ई—वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई—वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड हस्ता./-मनीशा अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

## आदिशक्ति लोहा एण्ड इस्पात लिमिटेड पंजीकृतः प्लॉट ३, दुकान ३२५, डीडीए सी. सेंटर, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ेफोन: 011-27860681 ईमेलः info@adishaktiloha.com | वेबसाइटः adishaktiloha.com

एजीएम की सुचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आदिशक्ति लोहा एण्ड इस्पात लिमिटेड के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक ('बैठक') शनिवार, 30 सितंबर 2023 को दोपहर 12:15 बजे 'मेटो ग्रिल' 415,4वीं मंजिल, सिटी सेंटर मॉल, सेक्टर 10, रोहिणी, दिल्ली-110085 पर आयोजित की जाएगी। । बैठक बुलाने की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर करियर द्वारा भेज दी गई है, जिनकी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं है, और उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जिन्होंने अपना ईमेल पता डिपॉजिटरीज/कंपनी के साथ पंजीकृत किया है।

नोटिस सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.adishaktiloha.com) पर उपलब्ध है और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर बैठक की तारीख तक व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार में यजर आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ बैठक आयोजित करने के नोटिस की एक प्रति भी सदस्यों को भेज दिया गया है। ई-वोटिंग के लिए संचार का प्रारूप कंपनी की वेबसाइटः www.adishaktiloha.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार 29

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले

सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ए-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी, शनिवार, 23 सितंबर,2023 को सदस्यों/लाभभोगी

स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि

तक शेयर रखता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी

और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक के नोटिस में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। ईमेल पते का पंजीकरणः जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लें। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ इसे अपडेट करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले

सदस्यों के लिए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') के साथ अपडेट करें। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिकॉर्ड तिथि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागु नियमों के अनुसार नोटिस भी दिया जाता है. जिसके तहत कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए पात्र सदस्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। आदिशक्ति लोहा एण्ड इस्पात लिमिटेड के लिए

दिनांक: 06/09/2023 पवन कुमार मित्तल (निदेशक) स्थानः दिल्ली डीआईएन : 00749265

अचल सम्पत्ति (बंधक)

का विवरण

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE4002

फ्लैट नंबर 4002/एनई सेंट्रल, 1860 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1110,

thoughtful regeneration

पंजीकृत कार्वालवः सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड, ब्लॉक नं. ए/1003, वेस्ट गेट, वाईएमसीए क्लब के पास, सुर नंबर 835/1+3, एस.जी. हाईवे, कॉर्पोरेट कार्वालयः सीएफएम एसेट रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड बैलार्ड एस्टेट, मुंबई 400 038

|दिनांक: 07.09.2023

स्थानः दिल्ली

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) 'सीएफएम-एआरसी के अधिकृत अधिकारी ने आरपीएडी के माध्यम से सभी कर्जदारों/गारंटरों और बंधककर्ताओं को पहले ही धारा 13(2) के तहत मांग सुचना जारी कर

मांग सूचना

दिया था और सुचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित राशि की मांग की थी। हालाँकि, उक्त सुचना सभी प्राप्तकर्ताओं को आरपीएडी के माध्यम से नहीं भेजा जा सका, इसलिए यह प्रकाशन किया गया। इसलिए, हम नीचे संलग्न सचना में उत्लिखित राशि सीएफएम एसेट रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएम-एआरसी) को इस पेपर अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ मांग सूचना की तारीख से भुगतान या वसूली तक चुकाने का आह्वान

करते हैं। यदि आप इस सूचना का शतों के तहत अपने दायित्वों का निवेहन नहीं कर रहे हैं, तो हम अधिनयम की घारा 13(4) या घारा 14 के तहत प्रदत्त सभी या किसी एक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य होंगे।''यह अधिनियम और/या समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून के तहत हमें उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना है।''						
क्र. सं.	The state of the s	मांग सूचना की तिथि./ एनपीए तिथि./बकाया गणि		अचल सम्पत्ति (बंधक) का विवरण		
		एनपीए तिथि (तिथि/माह/सर्प)	तिथि तक बकाया गशि (रु.)			
1	1. रिपु 2. मीनाश्री H14000270318124056	मांग सृचना की लिथ : 07.08.2023 एनपीए लिथ : 06.04.2021	13-07-2023 को क. 3,894,382.57 (रुपये अड़तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ वयासी और सत्तावन	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE0509, फ्लैट नंबर 0509/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर		

पैसे मात्र)

13-07-2023 को

2 1. नीरू छायडा अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर की विधि : **Т.** 4,489,549.34 R0270NE2343, फ्लैट नंबर 2343/एनई सेंट्रल, 565 वर्ग फीट (रुपये चवालीस लाख 07.08.2023 चे क्रिएशन (इसके मालिक नीरू का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, नवासी हजार पांच एनपीए तिथि । छाबडा के माध्यम से) सेक्टर-74, गीतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर सौ उनचास और 06.04.2021 H13954280318094311 चीतीस पैसे मात्र) 1. रविंदर वर्मा 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर मांग सचना 五. 2,762,276.26 की तिथि : R0270NE4201, फ्लैट नंबर 4201/एनई सेंट्रल, 1640 वर्ग फीट 3. आर बी ज्वेलरी मार्ट (इसके (रुपये सत्ताईस लाख बासठ 07.08.2023 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 42वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, हजार दो सी छिहत्तर और एनपीए तिथि : मालिक रविंदर वर्मा के माध्यम से) सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर 07.05.2021 छब्बीस पैसे मात्र) H14382090418024803 स्थित है।

13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर मांग सचना 1. राजेश सिंह ъ. 4,319,370.62 की तिथि : R0270NE0508. फ्लैट नंबर 0508/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट 2. रोहित चंद (रुपये तैतालीस लाख 07.08.2023 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 05वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, H15230160418013832 एनपीए तिथि : उन्नीस हजार तीन सी सेक्टर-74, गीतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर सत्तर और बासट पैसे मात्र) 06.04.2021 स्थित है। 1. गोपाल दत्त 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर मांग सूचना 节. 4,038,785.87 R0270NE0504, फ्लैट नंबर 0504/एनई सेंट्रल, 565 वर्ग फीट (रूपये चालीस लाख 07.08.2023 H14318170418010510 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 05वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए,

अड़तीस हजार सात एनपीए तिथि सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर सौ पिचासी और 06.04.2021 स्थित है। सत्तासी पैसे मात्र) 1. फैजान ए सिद्दीकी अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर 13-07-2023 को मांग लचना ₹. 3,559,638.30 2. रेहान अहमद की तिथि : R0270NE2703, फ्लैट नंबर 2703/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट (रुपये पैतीस लाख 07.08.2023 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, H13954210418033820 उनसठ हजार छह सौ एनपीए तिथि अहतीस और तीस 06.04.2021

सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर पैसे मात्र) 1. आशीष कुमार 13-07-2023 को मांग सचना अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर ъ. 4,183,861.44 की तिथि 2.कमलेश गुप्ता R0270NE0511, फ्लैट नंबर 0511/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट (रुपये इकतालीस लाख 07.08.2023 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 05वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, H12655220418054410 तिरासी हजार आठ एनपीए तिथि : सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर सौ इकसठ और 06.04.2021

चौवालीस पैसे मात्र) स्थित है। 1. अभिनव गुप्ता अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर 13-07-2023 को मांग सूचना 2. हरिओम गुप्ता की तिथि : 节、4,595,024.05 R0270NE0901, फ्लैट नंबर 0901/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट (रुपये पैतालीस लाख H14699271018122834 07.08.2023 का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 09वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए एनपीए तिथि : पिचानबे हजार चौबीस सेक्टर-74, गीतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर और पांच पैसे मात्र) 06.04.2021 स्थित है।

13-07-2023 को 1. तरनजीत सिंह मांग सचना 2. इंद्रजीत कौर की विधि : 五, 3,639,912.62 (रुपये छत्तीस लाख 07.08.2023 H13953160518081516 एनपीए तिथि उनतालीस हजार नी सी

07.08.2023

एनपीए तिथि

06.04.2021

मांग सचना

की तिथि :

07.08.2023

एनपीए तिथि :

06.04,2021

मांग सूचना

को तिथि

07.08.2023

एनपीए तिथि :

मांग सचना

की तिथि :

07.08.2023

एनपीए लिथि :

07.05.2021

मांग सूचना

की लिचि :

07.08.2023

एनपीए तिथि :

06.04.2021

मांग सुचना

की तिथि :

07.08.2023

एनपीए तिथि :

06.04.2021

10 1. योगेश गर्ग

<sup>11</sup> 1.नीरज गुप्ता

2. कविता गुप्ता

गोपाल कुमार

<sup>12</sup> 2. पम्मी देवी

<sup>13</sup> 1.सुखबीर तंबर

के माध्यम से)

1. मनोज कुमार सिंह

2. विद्यावती देवी

15 1. कृष्ण कुमार शर्मा

2. दीक्षा शर्मा

2. सारिका गर्ग

H13551210818070003

H12655110718032422

H15379250618045819

3. सुखवीर ट्रूर एंड ट्रैवल

(इसके मालिक सुखबीर तंबर

H12655250618044052

H13550180718031203

H15379180818095350

बारह और बासठ पैसे मात्र) 06.04.2021

R0270NE1011, फ्लैट नंबर 1011/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट 13-07-2023 को मांग सचना ₽. 4,769,254.09 की तिथि :

13-07-2023 函

节. 4,958,113.02

(रुपये उनचास लाख

अट्टावन हजार एक सौ

तेरह और दो पैसे मात्र)

13-07-2023 को

₹. 3,673,968.65

पैसठ पैसे मात्र)

13-07-2023 को

₹. 5,572,442.94

(रूपये पैसे पचपन

पैसे मात्र)

13-07-2023 को

₹. 4,247,559.61

(रुपये बयालीस लाख

सैंतालीस हजार

पांच सी उनसठ और

इकसठ पैसे मात्र)

13-07-2023 को

五 4,558,086.39

अद्भवन हजार छियासी और

उनतालीस पैसे मात्र)

सेक्टर-74, गीतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर (रुपये सैतालीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर R0270NE1330, फ्लैट नंबर 1330/एनई सेंटल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर चौवन और नौ पैसे मात्र) स्थित है।

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1304, फ्लैट नंबर 1304/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है।

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर R0270NE1009, फ्लैट नंबर 1009/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, (रुपये छत्तीस लाख तिहत्तर सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर हजार नी सी अइसठ और प्रदेश, 201301 पर स्थित है। अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर

R0270NE1423, फ्लैट नंबर 1423/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर, लाख बहत्तर हजार चार सौ जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गीतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, ययालीस और चौरानवे 201301 पर स्थित है। अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर

R0270NE0801, फ्लैट नंबर 0801/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की आठवीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1004, फ्लैट नंबर 1004/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, (रुपये पैतालीस लाख

सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर

कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों का नाम एवं 16 1. उजैर अहसन 2. जुबैर अहसन H15379210818113402

. कार्तिक अरोडा

2. रोशी सेठी

18 1. आनंद पांडे

2. मीन पांडे

1. समीर छिब्बर

20 1 राकेश रंजन

2. सोनिया छिच्चर

H14699060918095220

H13953060918034402

07.08.2023 (रुपये एक करोड़ सत्रह बिल्डिंग की 40वीं मॅजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध लाख तैंतीस हजार छह सौ नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। एनपीए तिथि 06.04.2021 दो और वाईस पैसे मात्र) मांग सूचना 13-07-2023 को की तिथि : ₹. 4,614,420,69 H13954060918120806 07.08.2023 (रुपये छिवालीस लाख एनपीए तिथि चौदह हजार चार सी बीस 06.04.2021 और उनहत्तर पैसे मात्र)

मांग सूचना

की तिथि

07.08.2023

एनपीए तिथि

06.04.2021

मांग सूचना

की तिथि :

07.08.2023

एनपीए तिथि

06.04.2021

मांग सुचना

तिथि/माह/वर्ष

मांग सूचना

तिथि :

मांग सूचना की तिथि

एनपीए तिथि/बकाया राशि

राशि (रु.)

13-07-2023 को

₹. 11,733,602.22

सौ तैंवालीस और

इकतीस पैसे मात्र)

13-07-2023 को

₹. 12,460,387.99

(रुपये एक करोड

चौबीस लाख साठ हजार

तीन सौ सत्तासी और

निन्यानवे पैसे मात्र)

13-07-2023 को

फ्लैट नंबर 1110/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 11वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1326, ₹. 4,854,443.31 फ्लैट नंबर 1326/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई (रुपये अडतालीस लाख चौवन हजार चार

बिल्डिंग की 13वीं मॅजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE3910, फ्लैट नंबर 3910/एनई सेंट्रल, 1860 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 39वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE0804

नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है।

नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है।

की तिथि 2. सीमा रंजन ₹. 4,887,469.40 फ्लैट नंबर 0804/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई (रुपये अइतालीस H14699190918024540 07.08.2023 बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध लाख सत्तासी हजार एनपीए तिथि चार सी उनहत्तर और नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। 06.04.2021 चालीस पैसे मात्र) 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर R0270NE0920, ₹. 5,149,446.30 2. हराधन दास फ्लैट नंबर 0920/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट क्षेत्रफल, नॉर्थ आई को तिथि (रुपये इक्यावन लाख H14000031118121637 बिल्डिंग की 09वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध 07.08.2023

उनचास हजार चार एनपीए तिथि नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। सौ छियालीस और 06.04.2021 तीस पैसे मात्र) 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1118 मांग सूचना ₹. 46,44,594.36 2. युशरा उस्मानी की तिथि : फ्लैट नंबर 1118/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का क्षेत्रफल, नॉर्थ आई (रुपये छिवालीस लाख H13551151118030523 07.08.2023 बिल्डिंग की 11वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गीतमबुद्ध चौवालीस हजार पांच एनपीए तिथि

सी चौरानवे और छत्तीस 06.04.2021 पैसे मात्र) अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE3709, 13-07-2023 को दिनेश गोयल की तिथि : 五 11,509,099.97 फ्लैट नंबर 3709/एनई सेंट्रल, 1860 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई 3. गणपति ट्रेडर्स (इसके मालिक (रुपये एक करोड़ पंद्रह 07.08.2023 बिल्डिंग की 37वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध शशि गोयल के माध्यम से) एनपीए तिथि लाख नौ हजार निन्यानवे नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। H08518071218042203 06.04.2021 और सत्तानबे पैसे मात्र)

24 1. सुनील पांडे मांग सूचना 2. दीमि पांडे की तिथि : H13550121218120938 07.08.2023 एनपीए तिथि

H17716030119102545

3. पदम एंटरप्राइजेज (इसके

H14004120119040525

H17500150619111635

1. मोहम्मद मोहसिन रफी

H14631170318013350L

दिनांक: 08.09.2023

स्थानः नोएडा

2. सुयुही मोहसिन

1. विकास सेतिया

2. प्रियंका सेतिया

मालिक संजीव जैन के माध्यम से)

28 1. संजीव जैन

06.04.2021 मांग सूचना

मांग सूचना

की तिथि :

07.08.2023

एनपीए तिथि

06.04.2021

मांग सूचना

की तिथि

एनपीए तिथि

01.04.2021

मांग सूचना

को तिथि :

07.08.2023

13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE0810, ₽. 5,054,313.72 फ्लैट नंबर 0810/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई (रुपये पचास लाख चौवन बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध हजार तीन सी तेरह और नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। बहत्तर पैसे मात्र) 13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE3703.

. सिद्धार्थ श्रीवास्तव की तिथि : ₹. 13,273,110.06 2. दीपिका अस्थाना फ्लैट नंबर 3703/एनई सेंट्रल, 1860 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई 07.08.2023 (रुपये एक करोड H15368261218010804 बिल्डिंग की 37वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध एनपीए तिथि बत्तीस लाख तिहत्तर हजार नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। 06.04.2021 एक सी दस और छः पैसे मात्र) 1. दिग्विजय सिंह भदोरिया मांग सूचना 13-07-2023 को

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE0921, की तिथि : 2. आरती तोमर ₹. 4,696,290.24 फ्लैट नंबर 0921/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई 07.08.2023 H14004291218054529 (रुपये छियालीस लाख विल्डिंग की 09वीं मॉजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध एनपीए तिथि छेपानचे हजार दो सौ नब्बे नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। 06.04.2021 और चौबीस पैसे मात्र) का माप, नॉर्थ आई बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर, जीएच-01/ए, 27 1. सुबोध कुमार

13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NE1017, को तिथि : फ्लैट नंबर 1017/एनई सेंट्रल, 535 वर्ग फीट का माप, नॉर्थ आई 07.08.2023 (रुपये तिरपन लाख तेरह बिल्डिंग की 10वीं मॅजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतमबुद्ध एनपीए तिथि हजार तीन सी तीस और नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है। 06.04.2021 तैंतीस पैसे मात्र)

13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर 五 10,406,058.87 R0270NEW0402, फ्लैट नंबर 0402/नॉर्थ आई/न्य विंग्स 1425 (रुपये एक करोड़ चार वर्ग फीट, नॉर्थ आई बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर, जीएच-01/ए, लाख इंड हजार अट्टावन सेक्टर-74, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर और सत्तासी पैसे मात्र) स्थित है।

13-07-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर R0270NE4042, ₹. 5,775,544.45 फ्लैट नंबर 4042/एनई विंग्स, जिसका क्षेत्रफल 565 वर्ग फीट, नॉर्थ| (रूपये सत्तावन लाख आई बिल्डिंग की 40वीं मॅजिल पर, जीएच-01/ए, सेक्टर-74, पचहत्तर हजार पांच सौ गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 पर स्थित है।

चीवालीस और पैतालीस पैसे मात्र) 15-06-2023 को अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : युनिट नंबर R026CC22202, 五 1,29,04,336.92/-फ्लैट नंबर टावर/ब्लॉक 2202/उउ2 जिसका आकार 2495 वर्ग फीट, (रुपये एक करोड़ उनतीस

07.08.2023 DELHL17001219 लाख चार हजार तीन किपटाउन बिल्डिंग की 22वीं मॉजिल पर, प्लॉट नंबर एनपीए तिथि : सी छतीस और बानवे जिएच-01/ए, सेक्टर-74, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 06.04.2021 पैसे मात्र) 201303 स्थित है। 31 1. पंकज कुमार शर्मा 09-08-2023 को मांग सूचना अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : फ्लैट नं. - वार्लेसिया–1507, 五, 33,58,121.88/-2. सुनीता शर्मा की तिथि 15वीं मंजिल पर, 995 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड में भूमि (रुपये तैतीस लाख H14631240418011251 और 24.08.2023 अद्भावन हजार एक सौ का आनुपातिक हिस्सा और सामान्य सुविधाएं शामिल हैं,

H14631240418011251L एनपीए तिथि इक्कीस और अद्वासी प्लॉट नं. जीएच- 01, टीएस -01/बी, सेक्टर 22डी, यमुना 04.10.2019 पैसे मात्र) एक्सप्रेसवे. उत्तर प्रदेश 201301 09-08-2023 को 1. शैलेश सिंह अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : फ्लैट नं. - फीनिक्स-805, 8वीं की तिथि 2. सुधा सिंह 五、21,76,894.72/-(रुपये इक्कीस लाख H14631170318013350 और 24.08.2023

एनपीए तिथि

04.10.2019

मंजिल पर, 845 वर्ग फुट क्षेत्रफल, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड प्लॉट नं जीएच-01, टीएस -01/बी, सेक्टर 22डी, नोएडा, सेक्टर-22-डी, छिहत्तर हजार आट यमुना एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश 201301 पर। सौ चौरानवे और बहत्तर पैसे मात्र)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रवशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए [सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-74 के ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त]

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 06.09.2023